

वसुदेवसुतं(न) देवं(ङ्), कंसचाणूरमर्दनम्।  
देवकीपरमानन्दं(ङ्), कृष्णं(वँ) वन्दे जगद्गुरुम् ॥



॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

गीता परिवार द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता का शुद्ध उच्चारण सीखने हेतु  
अनुस्वार, विसर्ग व आघात प्रयोग सहित चरणानुसार विभाग, मूल संहितापाठ के अनुकूल

## सरल पठनीय गीता ~ षष्ठम (6वाँ) अध्याय

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

श्रीमद्भगवद्गीता

अथ षष्ठोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः(ख्) कर्मफलं(ङ्), कार्यं(ङ्) कर्म करोति यः।

स सन्न्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः॥1॥

यं(म्) सन्न्यासमिति प्राहुः(र), योगं(न्) तं(वँ) विद्धि पाण्डव।

न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो, योगी भवति कश्चन॥2॥

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं(ङ्), कर्म कारणमुच्यते।

योगारूढस्य तस्यैव, शमः(ख्) कारणमुच्यते॥3॥

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु, न कर्मस्वनुषज्जते।

सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी, योगारूढस्तदोच्यते॥4॥

उद्धरेदात्मनात्मानं(न्), नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः(र), आत्मैव रिपुरात्मनः॥5॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥6॥

जितात्मनः(फ) प्रशान्तस्य, परमात्मा समाहितः।  
शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा मानापमानयोः॥ 7॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः।  
युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्मकाञ्जनः॥ 8॥

सुहृन्मित्रार्युदासीन, मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु।  
साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते॥ 9॥

योगी युञ्जीत सततम्, आत्मानं(म) रहसि स्थितः।  
एकाकी यतचित्तात्मा, निराशीरपरिग्रहः॥ 10॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः।  
नात्युच्छ्रितं(न) नातिनीचं(ञ), चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ 11॥

तत्रैकाग्रं(म) मनः(ख) कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः।  
उपविश्यासने युञ्ज्याद्, योगमात्मविशुद्धये॥ 12॥

समं(ङ्) कायशिरोग्रीवं(न), धारयन्नचलं(म) स्थिरः।  
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं(म) स्वं(न), दिशश्चानवलोकयन्॥ 13॥

प्रशान्तात्मा विगतभीः(र), ब्रह्मचारिव्रते स्थितः।  
मनः(स) संयम्य मच्चित्तो, युक्त आसीत मत्परः॥ 14॥

युञ्जन्नेवं(म) सदात्मानं(यँ), योगी नियतमानसः।  
शान्तिं(न) निर्वाणपरमां(म्), मत्संस्थामधिगच्छति॥ 15॥

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्चतः।  
न चातिस्वप्रशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन॥ 16॥

युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु।  
युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा॥ 17॥

यदा विनियतं(ञ) चित्तम्, आत्मन्येवावतिष्ठते।  
निःस्पृहः(स) सर्वकामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते तदा॥ 18॥

यथा दीपो निवातस्थो, नेङ्गते सोपमा स्मृता।  
योगिनो यतचित्तस्य, युञ्जतो योगमात्मनः॥ 19॥

यत्रोपरमते चित्तं(न), निरुद्धं(यँ) योगसेवया।  
यत्र चैवात्मनात्मानं(म्), पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ 20॥

सुखमात्यन्तिकं(यँ) यत्तद्, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।  
वेत्ति यत्र न चैवायं(म्), स्थितश्चलति तत्त्वतः॥21॥

यं(लँ) लब्ध्वा चापरं(लँ) लाभं(म्), मन्यते नाधिकं(न्) ततः।  
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचाल्यते॥22॥

तं(वँ) विद्याद् दुःखसंयोग, वियोगं(यँ) योगसञ्ज्ञितम्।  
स निश्चयेन योक्तव्यो, योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥23॥

सङ्कल्पप्रभवान्कामांस्, त्यक्त्वा सर्वानशेषतः।  
मनसैवेन्द्रियग्रामं( वँ), विनियम्य समन्ततः॥24॥

शनैः(श) शनैरुपरमेद्, बुद्ध्या धृतिगृहीतया।  
आत्मसंस्थं(म्) मनः(ख) कृत्वा, न किञ्चिदपि चिन्तयेत्॥25॥

यतो यतो निश्चरति, मनश्चञ्चलमस्थिरम्।  
ततस्ततो नियम्यैतद्, आत्मन्येव वशं(न्) नयेत्॥26॥

प्रशान्तमनसं(म्) ह्येनं(यँ), योगिनं(म्) सुखमुत्तमम्।  
उपैति शान्तरजसं(म्), ब्रह्मभूतमकल्मषम्॥27॥

युञ्जन्नेवं(म्) सदात्मानं(यँ), योगी विगतकल्मषः।  
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्, अत्यन्तं(म्) सुखमश्नुते॥28॥

सर्वभूतस्थमात्मानं(म्), सर्वभूतानि चात्मनि।  
ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः॥29॥

यो मां(म्) पश्यति सर्वत्र, सर्वं(ञ्) च मयि पश्यति।  
तस्याहं(न्) न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति॥30॥

सर्वभूतस्थितं(यँ) यो मां(म्), भजत्येकत्वमास्थितः।  
सर्वथा वर्तमानोऽपि, स योगी मयि वर्तते॥31॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र, समं(म्) पश्यति योऽर्जुन।  
सुखं(वँ) वा यदि वा दुःखं(म्), स योगी परमो मतः॥32॥

अर्जुन उवाच

योऽयं( यँ) योगस्त्वया प्रोक्तः(स्), साम्येन मधुसूदन।  
एतस्याहं(न्) न पश्यामि, चञ्चलत्वास्थितिं(म्) स्थिराम्॥33॥

चञ्चलं(म्) हि मनः(ख) कृष्ण, प्रमाथि बलवद्दृढम्।  
तस्याहं(न्) निग्रहं(म्) मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्॥34॥

श्रीभगवानुवाच

असंशयं(म) महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं(ञ्) चलम्।  
अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते॥35॥

असंयतात्मना योगो, दुष्प्राप इति मे मतिः।  
वश्यात्मना तु यतता, शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥36॥

अर्जुन उवाच

अयतिः(श) श्रद्धयोपेतो, योगाच्चलितमानसः।  
अप्राप्य योगसंसिद्धिं(ङ्), कां(ङ्) गति(ङ्) कृष्ण गच्छति॥37॥

कच्चिन्नोभयविभ्रष्टः(श), छिन्नाभ्रमिव नश्यति।  
अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढो ब्रह्मणः(फ्) पथि॥38॥

एतन्मे संशयं(ङ्) कृष्ण, छेत्तुमर्हस्यशेषतः।  
त्वदन्यः(स्) संशयस्यास्य, छेत्ता न ह्युपपद्यते॥39॥

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते।  
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्, दुर्गतिं(न्) तात गच्छति॥40॥

प्राप्य पुण्यकृतां(लँ) लोकान्, उषित्वा शाश्वतीः(स्) समाः।  
शुचीनां(म्) श्रीमतां(ङ्) गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते॥41॥

अथवा योगिनामेव, कुले भवति धीमताम्।  
एतद्धि दुर्लभतरं(लँ) , लोके जन्म यदीदृशम्॥42॥

तत्र तं(म्) बुद्धिसंयोगं(लँ), लभते पौर्वदेहिकम्।  
यतते च ततो भूयः(स्), संसिद्धौ कुरुनन्दन॥43॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव, हियते ह्यवशोऽपि सः।  
जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्दब्रह्मातिवर्तते॥44॥


प्रयत्नाद्यतमानस्तु, योगी संशुद्धकिल्बिषः।  
अनेकजन्मसंसिद्धः(स्), ततो याति परां(ङ्) गतिम्॥45॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।  
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन॥46॥

योगिनामपि सर्वेषां(म्), मद्गतेनान्तरात्मना।  
श्रद्धावान्भजते यो मां(म्), स मे युक्ततमो मतः॥47॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां (यँ) योगशास्त्रे  
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥

॥ ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥



- विसर्ग के उच्चार जहाँ (ख) अथवा (फ) लिखे गये हैं, वह प्रत्यक्ष ख् अथवा फ् नहीं होते, उनका उच्चारण 'ख्' या 'फ्' के जैसा किया जाता है।
- संयुक्त वर्ण (दो व्यंजन वर्णों के संयोग) से पहले वाले अक्षर पर आघात (हल्का सा जोर) देकर पढ़ना चाहिये। '॥' का चिह्न आघात को दर्शाने हेतु दिया गया है।
- कुछ स्थानों पर स्वर के पश्चात् संयुक्त वर्ण होने पर भी अपवाद नियम के कारण आघात नहीं दिये गये हैं जैसे एक ही वर्ण के दो बार आने से, तीन व्यंजनों के संयुक्त होने से, रफार (उपर र) या हकार आने पर आदि। जिन स्थानों पर आघात का चिह्न नहीं वहाँ बिना आघात के ही अभ्यास करें।



योगेशं(म्) सच्चिदानन्दं(वँ), वासुदेवं(वँ) व्रजप्रियम्।  
धर्मसंस्थापकं(वँ) वीरं(ङ्), कृष्णं(वँ) वन्दे जगद्गुरुम्॥

  
LEARN GEETA

तस्मात् योगी भवार्जुन

Learngeeta.com

गीता परिवार साहित्य का उपयोग किसी अन्य स्थान पर करने हेतु पूर्वानुमति आवश्यक है।